

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43]

नई दिल्ली, रविवार, मार्च 1, 1970/फाल्गुन 10, 1891

No. 43]

NEW DELHI, SUNDAY, MARCH 1, 1970/PHALGUNA 10, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st March 1970

G.S.R. 337.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 18/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969, the Central Government hereby exempts sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), from so much of the duty of excise and the additional duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty and the additional duty calculated at twenty per cent and five per cent, respectively, on the basis of the price determined by the Central Government, from time to time, under sub-section (3C) of section 3 of the said Essential Commodities Act, as the price payable for such sugar to the producer thereof:

Provided that the element of the duty and the additional duty, if any, added to the price aforesaid shall be deducted before calculating the duty and the additional duty on the basis of such price.

[No. 15/70.]

G.S.R. 338.—In pursuance of rule 92-B of the Central Excise Rules, 1944 read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby directs that in the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) specified in column (2) of the Table below, for the figures specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, the figures specified against each of them in column (4) thereof shall be substituted.

THE TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	For	Substitute
1	2	3	4
1	No. 57/67-Central Excises, dated the 15th April, 1967	“730” “970” “1470” “1950”	“590” “780” “1160” “1520”
2	No. 58/67-Central Excises, dated the 15th April, 1967	“1090” “1470” “2190” “2920”	“880” “1180” “1720” “2280”

[No. 16/70.]

G.S.R. 339.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 22/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969, the Central Government hereby exempts prepared or preserved foods falling under Item No. 1B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), other than those specified in the Schedule hereto annexed, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

THE SCHEDULE

1. Sausages and the like, of meat, meat offal or animal blood;
2. Other prepared or preserved meat or meat offal;
3. Meat extracts and meat juices;
4. Prepared or preserved fish, including caviar and caviar substitutes;
5. Crustaceans and molluscs, prepared or preserved;
6. Soups and broths, in liquid, solid or powder form;
7. (a) Bottled or canned fruits (other than nuts) specified under part V of the Second Schedule to the Fruit Products Order, 1955 issued by the Central Government under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955);
(b) Sauces, ketchup and the like;
8. Jams, fruit jellies, marmalades, fruit puree and fruit pastes, being cooked preparations, whether or not containing added sugar; tomato puree and tomato paste;
9. Fruit syrups, squashes, cordials, fruit juice, mango nectar, fruit juice concentrate, fruit pulp concentrate, vegetable juice, ginger-cocktail, ginger beer, ginger ale, synthetic syrups and sharbats, and ready-to-serve beverages (but excluding aerated waters);

10. Corn flakes, wheat flakes, pearl barley, oats and beans;
11. Dehydrated peas packed in cans or foil packets;
12. Milk powder but excluding such powder specially prepared for feeding of infants;
13. Condensed milk, whether sweetened or not;
14. Preparations with a basis of flour, of starch, of malt extract, or of malted barley, and milk foods, which, by simply mixing with, or boiling in, milk or water, can be used for making beverages, invalid foods and gruels, whether or not containing cocoa, but excluding baby foods, that is to say, foods specially prepared for feeding of infants;
15. Table jellies or jelly crystals; custard powders; ice cream powders.

Explanation.—The following products shall not be deemed to be prepared or preserved foods falling under this Schedule, namely:—

- (i) Meat, edible meat offal, fish, crustaceans or molluscs which have only been chilled, frozen, salted, preserved in brine, dried or smoked;
- (ii) Crustaceans, in shell, simply boiled in water;
- (iii) Pickles;
- (iv) Chutneys;
- (v) Nuts, including cashewnuts and groundnuts, in any form;
- (vi) Any article of 'Prasad' or 'Prasadam' (like Palani Panchamritam) intended for offering in any place of worship.

[No. 17/70.]

G.S.R. 340.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 the Central Government hereby exempts aerated waters, falling under Item No. 1D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that the aforesaid exemption shall not apply to any aerated waters—

- (i) which are sold under a brand name, that is to say, a name or a registered trade mark under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958), and
- (ii) in or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power.

[No. 18/70.]

G.S.R. 341. In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 100/61-Central Excises, dated the 20th April, 1961, the Central Government hereby exempts coffee of the varieties commonly known as Robusta, Liberia, Excelsia or Robusta hybrid, falling under sub-item (1) of item No. 2 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of fifty-five rupees per quintal.

[No. 19/70.]

G.S.R. 342.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 24/65-Central Excises dated the 28th February, 1965, namely:—

In the Table annexed to the said notification, the entries against serial number 2 relating to Item No. 4 II(2) shall be omitted.

[No. 20/70.]

G.S.R. 343.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cigarettes falling under Item No. 4 II(2) of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (1) of the Table hereto annexed from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty mentioned in the corresponding entry in column (2) thereof:

THE TABLE

Description	Duty
(1)	(2)
Cigarettes of which the value per 1000—	
(i) exceeds Rs. 25.00	One hundred and twenty-five per cent <i>ad valorem</i>
(ii) exceeds Rs. 9.50 but does not exceed Rs. 25.00	Eighty per cent. <i>ad valorem</i> .
(iii) does not exceed Rs. 9.50	Forty-two and a half per cent. <i>ad valorem</i>

[No. 21/70.]

G.S.R. 344.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 105/67-Central Excises, dated the 26th May, 1967, the Central Government hereby exempts cigarettes, falling under Item No. 4 II(2) of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (1) of the Table hereto annexed, from so much of the additional duty of excise leviable thereon under the first-mentioned Act, as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table

TABLE

Description	Duty
(1)	(2)
Cigarettes of which the value—	
(i) exceeds Rs. 25 a thousand	24 per cent. <i>ad valorem</i> .
(ii) exceeds Rs. 9.50 a thousand but does not exceed Rs. 25 a thousand	15 per cent. <i>ad valorem</i> .
(iii) does not exceed Rs. 9.50 a thousand	5 per cent <i>ad valorem</i> .

[No. 22/70.]

G.S.R. 345.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that in the Table annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 92/66-Central Excises dated the 6th June, 1966, for the figures "205.25" and "50.75", the figures "225.25" and "70.75" shall, respectively, be substituted.

[No. 23/70.]

G.S.R. 346.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944, the Central Government hereby exempts pigments, colours, paints, enamels, varnishes, blacks and cellulose lacquers; falling under Item No. 14 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and manufactured in a factory in which none of the aforesaid products is manufactured with the aid of power, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 24/70.]

G.S.R. 347.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts mixed fertilisers, falling under Item No. 14HH of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), manufactured with the aid of power from two or more fertilisers on all of which the appropriate amount of the duty of excise or, as the case may be, the additional duty under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), has already been paid, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

Explanation.—For the purposes of this notification, the term “mixed fertilisers” means mixtures of fertilisers containing more than one nutrient (nitrogen, phosphate or potash) and does not include single nutrient fertilisers like super phosphate manufactured from rock phosphate.

[No. 25/70.]

G.S.R. 348.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 the Central Government hereby directs that in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 59/64-Central Excises, dated the 1st March, 1964, for the words “except poly-urethane foam and rigid plastic laminated boards and sheets”, the words, figures and brackets “except (i) poly-urethane foam, (ii) rigid plastic boards and sheets whether laminated or not and (iii) flexible polyvinyl chloride sheets not containing any textile material” shall be substituted.

[No. 26/70.]

G.S.R. 349.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts flexible polyvinyl chloride sheets not containing any textile material, falling under sub-Item (2) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of 25 per cent. *ad valorem*.

[No. 27/70.]

G.S.R. 350.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 155/69-Central Excises dated the 7th June, 1969, the Central Government hereby exempts Poly-urethane foam and rigid plastic boards and sheets, whether laminated or not and falling under sub-item (2) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of twenty per cent. *ad valorem*.

Provided that if any plastic materials, cellophane, paper or cotton fabrics on which the appropriate amount of duty of excise or the additional duty under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) as the case may be, has already been paid, are used in the manufacture of poly-urethane foam or rigid plastic boards or sheets, the amount of duty of excise or the additional duty so paid shall also be adjusted towards the duty payable on the poly-urethane foam or rigid plastic boards or sheets as the case may be.

[No. 28/70.]

G.S.R. 351.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts synthetic rubber latex including pre-vulcanised synthetic rubber latex falling under Item No. 16AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty calculated on the basis of the weight of the total solids content thereof.

[No. 29/70.]

G.S.R. 352.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 127/66-Central Excises, dated the 13th August, 1966, the Central Government hereby exempts broadcast television receiver sets, falling under Item No. 33A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of 15 per cent. *ad valorem*.

[No. 30/70.]

G.S.R. 353.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 207/67-Central Excises, dated the 16th September, 1967, for the brackets and words "(other than radiograms and radios with extra space in cabinet for fitting in record players or record changers)", the brackets, words and figures "[other than (i) radiograms (ii) radios with extra space in cabinet for fitting in record players or record changers and (iii) broadcast television receiver sets]" shall be substituted.

[No. 31/70.]

G.S.R. 354.—In exercise of the powers conferred by rule 12 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 197/62-Central Excises, dated the 17th November, 1962, namely:—

2. In the Table annexed to the said notification,—

(1) in column 2, against serial No. 1,—

- (i) for the entry relating to confectionery and chocolates, the following entry shall be substituted, namely:—

"Confectionery, cocoa powder and chocolates in or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power."

- (ii) for the entry relating to steel furniture, the following entry shall be substituted, namely:—

"Steel furniture made partly or wholly of steel in or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power, whether in assembled or unassembled condition, and parts of such steel furniture (but excluding slotted angles and channels made of steel)."

- (iii) the following entries shall be added at the end, namely:—

"Food products, in or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power.

Aerated waters, whether or not flavoured or sweetened and whether or not containing vegetable or fruit juice or fruit pulp.

Glucose and dextrose.

Chemicals, namely, calcium carbide, bleaching paste and bleaching powder and sodium hydrosulphite.

Synthetic rubber and synthetic rubber latex.

Office machines and apparatus.

Sparking plugs.

Safety razor blades made of stainless steel.

Metal containers ordinarily intended for packaging of goods for sale.

Slotted angles and channels made of steel.

Safes, strong-boxes, strong-room linings and strong-room doors (whether or not with door frames) and cash and deed boxes and the like, of base metal.”;

(2) for the entries in columns 2 and 4, against serial No. 9, the following entries shall, respectively, be substituted, namely:—

2

4

‘Package tea, other than “instant tea”, packed in any kind of container containing—

- (a) not more than 25 grams net of tea Forty paise per kilogram,
- (b) more than 25 grams but not more than 20 kilograms net One rupee per kilogram.”

[No. 32/70.]

G.S.R. 355.—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Sixth Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in rule 13, for the words “tea all varieties except package tea made from duty-paid loose tea”, the words, figures and brackets “tea, all varieties except package tea falling under sub-item (2) of item No. 3 of the First Schedule to the Act made from duty-paid loose tea” shall be substituted.

[No. 33/70.]

G.S.R. 356.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 17/68-Central Excises dated the 10th February, 1968, the Central Government hereby exempts instant tea falling under sub-item (3) of Item No. 3 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 from the whole of the duty of excise leviable thereon if such instant tea is exported.

[No. 34/70.]

G.S.R. 357.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts package tea falling under sub-item (2) of Item No. 3 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) as is packed in any kind of container containing not more than 25 grams net of tea, from so much of the duty leviable thereon as is in excess of forty paise per kilogram plus the duty for the time being leviable under sub-item (1) of the aforesaid Item, if not already paid.

[No. 35/70.]

G.S.R. 358.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/61-Central Excises dated the 1st March, 1961, the Central Government hereby exempts package tea falling under sub-item (2) of Item No. 3 of the First Schedule to Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) as is packed in any kind of container containing more than 25 grams but not more than 20 kilograms net of tea, from so much of the duty leviable thereon as is in excess of one rupee per kilogram *plus* the duty for the time being leviable under sub-item (1) of the aforesaid Item, if not already paid.

[No. 36/70.]

G.S.R. 359.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 9/61-Central Excises dated the 1st March, 1961, the Central Government hereby exempts package tea falling under sub-item (2) of Item No. 3 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) as is packed in any kind of container containing more than 20 kilograms net of tea, from so much of the duty leviable thereon as is in excess of the duty for the time being leviable under sub-item (1) of the aforesaid Item.

[No. 37/70.]

G.S.R. 360.—In exercise of the powers conferred by sub-item (1) of item No. 3 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and rule 96F of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 23/62-Central Excises, dated the 24th April, 1962, namely:—

In the said notification—

(i) for the words “the Central Government hereby fixes the following rates of duty on tea, all varieties except package tea”, the words, brackets and figures “the Central Government hereby fixes the following rates of duty on tea, falling under sub-item (1) of item No. 3 of the aforesaid First Schedule” shall be substituted;

(ii) in the Table—

(a) for the words “naya paise”, the word “rupees” shall be substituted;

(b) for the figures in the third column “25.0”, “40.0”, “50.0”, “55.00” and “65.0”, the figures “0.25”, “0.50”, “1.50”, “1.00” and “1.15” shall, respectively, be substituted.

[No. 38/70.]

G.S.R. 361.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 35/64-Central Excises dated the 1st March, 1964, as subsequently amended, namely:—

In the said notification, in the TABLE, in column (2), for the entries “18 paise per kilogram” and “28 paise per kilogram” the entries “14 paise per kilogram” and “22 paise per kilogram” shall, respectively, be substituted.

[No. 39/70.]

G.S.R. 362.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the

Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 55/69-Central Excises dated the 1st March, 1969 namely:—

In the said notification, in the Table, for sub-item (ii) of S. No. 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(2)	(3)
“(ii) of non-cellulosic origin:	
(a) acrylic fibre	4.50
(b) polyester fibre of not more than 2 deniers	25.00
(c) others	21.00”

[No. 40/70.]

G.S.R. 363.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 72/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969, namely:—

In the said notification, after the word “lappet”, the words “butta fabrics, round mesh mosquito netting,” shall be inserted.

[No. 41/70.]

G.S.R. 364.—In pursuance of rule 96J of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 41/65-Central Excises dated the 28th February, 1965, namely:—

In the said notification—

- (1) the first proviso shall be omitted;
- (2) in the second proviso, for the words “provided further that” the words “provided that” shall be substituted;
- (3) in the third proviso, for the words “provided also that” the words “provided further that” shall be substituted.

[No. 42/70.]

G.S.R. 365.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 91/69-Central Excises dated the 1st March, 1969, namely:—

In the Table annexed to the said notification Sl. No. 16 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 43/70.]

G.S.R. 366.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 75/69-Central Excises dated the 1st March, 1969, the Central Government hereby exempts processed rayon and artificial silk fabrics falling under sub-item (1) of item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the Table hereto annexed from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S. No	Description	Duty
(1)	(2)	(3)
Rayon or artificial silk fabrics—		
(a)	not exceeding Rs. 2·50 per square metre in value .	Two per cent. ad valorem.
(b)	exceeding Rs. 2·50 per square metre but not exceeding Rs. 3·50 per square metre in value.	Three and a half per cent. ad valorem.
(c)	exceeding Rs. 3·50 per square metre but not exceeding Rs. 5·00 per square metre in value.	Five per cent. ad valorem.
(d)	exceeding Rs. 5·00 per square metre in value . . .	Six and a half per cent. ad valorem.

Explanation.—For the purpose of this notification, the expression “processed” means all processes which are ordinarily carried on with the aid of power or steam other than the process of calendering with plain rollers.

[No. 44/70.]

G.S.R. 367.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts processed rayon and artificial silk fabrics falling under sub-item (1) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the Table hereto annexed from so much of the additional duty of excise leviable thereon under the first mentioned Act as is in excess of the duty specified in the corresponding entry of column (3) of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Description	Duty
(1)	(2)	(3)
Rayon or artificial silk fabrics—		
(a)	not exceeding Rs. 2·50 per square metre in value .	0·6 per cent. ad valorem.
(b)	exceeding Rs. 2·50 per square metre but not exceeding Rs. 3·50 per square metre in value.	One and a half per cent. ad valorem.
(c)	exceeding Rs. 3·50 per square metre but not exceeding Rs. 5·00 per square metre in value.	Two per cent. ad valorem.
(d)	exceeding Rs. 5·00 per square metre in value . . .	2·2 per cent. ad valorem.

Explanation.—For the purpose of this notification, the expression “processed” means all processes which are ordinarily carried on with the aid of power or steam other than the process of calendering with plain rollers.

[No. 45/70.]

G.S.R. 368.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts aluminium of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the sub-items specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, of Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified and subject to the conditions laid down in the corresponding entries in columns (4) and (5) respectively of the said Table.

THE TABLE

Ser- ial No.	Sub-item No.	Description	Duty	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(b) and (c).	Plates, sheets, circles, strips and foils in any form or size.	Nil	If produced in ordnance factories belonging to the Central Government and intended for consumption by the ordnance factories or for supply to the Central Government Departments.
2	(a).	Aluminium in any crude form (including ingots, bars, blocks, slabs, billets, shots and pellets), wire bars, wire rods and castings.	Nil	If manufactured from any of the following materials or a combination thereof namely:— (1) old aluminium scrap; or (2) (a) scrap obtained from virgin metal; or (b) virgin aluminium in any crude form; or (c) a combination of materials mentioned at (a) and (b) above, on which the prescribed amount of duty of excise or the additional duty leviable under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) as the case may be, has already been paid.
3.	(a)	Aluminium recovered from dross or skimmings of aluminium.	Nil	
4.	(b)	Circles having thickness of and above 0.56 millimetres but not above 1.22 millimetres.	Nil	(1) If in the manufacture of circles, aluminium in any crude form made from any of the following materials, or combination thereof, are used, namely:— (a) old aluminium scrap; or

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>(b) (i) scrap obtained from virgin metal; or (ii) virgin aluminium in any crude form; or (iii) a combination of materials mentioned at (i) and (ii) above on which the prescribed amount of duty of excise or the additional duty leviable under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) as the case may be, has already been paid,</p> <p>(2) The aluminium circles are manufactured by producers who do not produce virgin aluminium from bauxite or from alumina or from both, whether in the same factory or in another factory in India.</p>
5	(b), (c), (d) and (e).	Aluminium articles.	Appropriate amount of duty chargeable less eight hundred and fifty rupees per metric tonne.	<p>(1) If in the manufacture of aluminium articles aluminium in any crude form made from any of the following materials or combination thereof, are used, namely:—</p> <p>(a) old aluminium scrap; or (b) (i) scrap obtained from virgin metal; or (ii) virgin aluminium in any crude form; or (iii) a combination of materials mentioned at (i) and (ii) above on which the prescribed amount of duty of excise or the additional duty leviable under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) as the case may be, has already been paid.</p> <p>(2) The aluminium articles are manufactured by producers who do not produce virgin aluminium from bauxite or from alumina or from both, whether in the same factory or in another factory in India</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6 (b)	Aluminium sheets	Six per cent. <i>ad valorem</i> .	If used in the electrolysis process.	
7 (d) and (e)	Aluminium pipes having outside diameter of	Ten per cent <i>ad valorem</i> .	If used solely in sprinkler equipment for agricultural irrigation purposes and the manufacture of such aluminium pipes produces a certificate from the District Agricultural Officer or any other officer authorised by the State Government to the effect that the pipes are used solely for the aforesaid agricultural purposes.	
	(i) 5.08 centimetres, 7.62 centimetres, 10.16 centimetres and wall thickness of 50 millimetres,			
	(ii) 12.70 centimetres and wall thickness of 52 millimetres,			
	(iii) 15.24 centimetres/ and wall thickness of 58 millimetres,			
8 (b)	Circles having thickness of and above 0.56 millimetres but not above 1.22 millimetres.	Seventeen and a half per cent. <i>ad valorem</i>		

[No. 46/70.]

G.S.R. 369.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 24/65-Central Excises dated the 28th February, 1965, namely:—

In the Table annexed to the said notification, S. No. 11 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 47/70.]

G.S.R. 370.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts tin plates and tinned sheets including cuttings thereof and falling under Item No. 28 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the duty of excise or the additional duty under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) as the case may be, already paid on uncoated plates or sheets or strips.

[No. 48/70.]

G.S.R. 371.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts domestic refrigerators of a capacity not exceeding 165 litres and falling under sub-item (i) of Item No. 29A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of thirty per cent. *ad valorem*.

[No. 49/70.]

G.S.R. 372.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944, the Central Government hereby exempts parts of refrigerating and air-conditioning appliances and machinery falling under sub-item (3) of Item No. 29A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon

as is in excess of forty per cent. ad valorem, subject to the following conditions, namely:—

- (a) The Collector of Central Excise is satisfied that the aforesaid parts are required for use in refrigerating or air-conditioning appliance or machinery which is already installed or to be installed in—
 - (i) any hospital run by the Central Government, a State Government, a local authority or a public charitable institution or
 - (ii) any factory;
 - (b) The head of the aforesaid hospital or the chief executive of the factory, for which the parts of refrigerating or air-conditioning appliances or machinery are required gives a written undertaking to the Collector of Central Excise that he will satisfy the proper officer of the Central Excise—
 - (i) within one month of the date of clearance of the parts by the manufacturer, after payment of duty or such extended period as the Collector of Central Excise may allow, in the case of parts required for the refrigerating or air-conditioning appliances or machinery already installed in such hospital or factory, as the case may be, and
 - (ii) within one year of the date of clearance, of the parts by the manufacturer after payment of duty, or such extended period as the Collector may allow, in the case of parts required for the refrigerating or air-conditioning appliances or machinery to be installed in such hospital or factory, as the case may be,
- that the parts are actually used in the refrigerating or air-conditioning appliances or machinery installed or to be installed, as the case may be, in such hospital or factory and in default to pay the part of the duty which is exempt under this notification; and
- (c) The procedure specified in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

Explanation.—For the purpose of this notification, “factory” means any premises including the precincts thereof where any goods are manufactured or are stored but does not include any premises which are used for office purposes.

[No. 50/70.]

G.S.R. 373.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts office machines and apparatus [falling under Item No. 33D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)] other than those specified in the Schedule hereto annexed, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

THE SCHEDULE

1. Typewriters including those incorporating calculating devices.
2. Cheque writing machines.
3. Teleprinters.
4. Calculating machines.
5. Accounting machines.
6. Cash registering machines (whether known as cash register or by any other name).
7. Postage-franking machines.
8. Automatic vending machines including ticket issuing machines.
9. Totalisers.
10. Statistical machines including sorting and tabulating machines.
11. Punching machines.
12. Checking machines.
13. Reproducing machines.
14. Interpreting machines.
15. Hectograph or stencil duplicating machines.

16. Addressing machines.
17. Coin sorting machines.
18. Coin counting and wrapping machines.
19. Perforating and stapling machines.
20. Letter folding machines.
21. Letter opening machines and letter closing or sealing machines.
22. Stamp cancelling machines.
23. Machines for delivering wrapping paper or gummed tape.
24. Machines for moistening gummed paper or stamps.
25. Paper shredders of a kind used for destroying confidential waste.
26. Dictating machines.
27. Intercom devices.
28. Photo copying machines.
29. Time recording and attendance machines.
30. Computers (including Central processing units and peripheral devices) and other data processing machines.

[No. 51/70.]

G.S.R. 374.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts parts of steel furniture falling under Item No. 40 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), other than those which have been given a special shape or design so as to make them clearly identifiable as essential components of steel furniture and from which, in conjunction with other parts, an article of steel furniture can be assembled with or without bolts and nuts, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 52/70.]

G.S.R. 375.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts face powder cases and spectacle cases falling under Item No. 46 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 53/70.]

G.S.R. 376.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 223/62-Central Excises, dated the 29th December, 1962, namely:—

In the said notification—

(i) after item No. 10, the following item shall be inserted, namely:—

“10A Rayon or artificial silk fabrics falling under sub-item (1) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).”

(ii) for item No. 31, the following item shall be substituted, namely:—

“31 Steel furniture and parts of such furniture.”

[No. 54/70.]

G.S.R. 377.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), namely:—

- (1) No. 188/61-Central Excises dated the 23rd December, 1961.
- (2) No. 91/67-Central Excises dated the 26th May, 1967.
- (3) No. 119/67-Central Excises dated the 14th June, 1967.

- (4) No. 120/67-Central Excises dated the 14th June, 1967.
- (5) No. 169/67-Central Excises dated the 24th July, 1967.
- (6) No. 240/67-Central Excises dated the 28th October, 1967.
- (7) No. 139/68-Central Excises dated the 6th July, 1968.
- (8) No. 140/68-Central Excises dated the 6th July, 1968.
- (9) No. 148/68-Central Excises dated the 18th July, 1968.
- (10) No. 194/68-Central Excises dated the 23rd November, 1968.
- (11) No. 68/69-Central Excises dated the 1st March, 1969
- (12) No. 81/69-Central Excises dated the 1st March, 1969
- (13) No. 138/69-Central Excises dated the 13th May, 1969.
- (14) No. 142/69-Central Excises dated the 13th May, 1969.

[No. 55/70.]

G.S.R. 378.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 31 of the Finance Act, 1969 (14 of 1969), the Central Government hereby exempts all excisable goods mentioned in sub-section (1) of section 31 of the said Act from so much of the special duty of excise leviable thereon under that sub-section read with any notification issued under sub-section (4) of that section, as relates to the period commencing on the 1st March, 1970, and ending with the 31st March, 1970.

[No. 56/70.]

G.S.R. 379.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 33 of the Finance Bill, 1970, which clause has, by virtue of a declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts the excisable goods specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the Items, specified in column (2) of the said Table, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter called the Central Excises Act), from so much of the special duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of clause 33 aforesaid as is in excess of the duty specified in the corresponding entries in column (4) of the said Table and subject to the conditions laid down in the corresponding entries in column (5) thereof:—

THE TABLE

Sl. No.	Item No. of the First Schedule to the Central Excises Act	Description	Duty as percentage of duty leviable under the Central Excises Act read with any notification for the time being in force	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2(2)	Coffee <input checked="" type="checkbox"/> commercially known as "instant coffee"	Nil	
2	3(1)	All varieties of tea (except package tea and instant tea)	Nil	
3	6	Motor spirit	Nil	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	8	Refined Diesel oils and Vaporizing oils	Nil	
5	9	Diesel Oil, not otherwise specified	Nil	
6	13	Vegetable Product	Nil	
7	14D	Synthetic organic dye-stuffs (including pigment dyestuffs) and synthetic organic derivatives used in any dyeing process.	Nil	
8	15B	Cellophane	Nil	
9	16	Tyres for motor vehicles but only on the first clearances for home consumption during the period commencing on the 1st April, 1970 and ending on the 31st March, 1971 (both days inclusive) upto a total value of Rs 1.25 crores.	Nil	If the total value of the tyres for motor vehicles cleared by the manufacturer during the financial year 1969-70 for home consumption did not exceed Rs. 4 crores.
10	17(2)	Printing and writing paper (including all unbleached, badami, cream laid and cream wove varieties thereof, but not including other coloured or tinted varieties), of a substance not exceeding 75 grammes per square metre.	Nil	If such paper does not contain in its substance any rag in the form of pulp or if it contains any rag, it also contains in its substance not less than, 40 per cent. of bagasse, jute stalk or cereal straw in the form of pulp.
<p>EXPLANATION.—For the purpose of this entry, addition of colour to improve the whiteness of the paper shall not be considered as making the paper coloured or tinted.</p>				
11	18A.	Cotton twist, yarn and thread, all sorts	Nil	<p>EXPLANATION.— The expression 'rag in the form of pulp' does not include pulp made out of soiled rags taken from worn and torn pieces of garments, or from soiled scraps of cloth (collected either from residential quarters or from streets or from debris dumps), or from such worn and torn pieces of garments and soiled scraps of cloth.</p>
12	23A	Glass and Glassware other than sheet glass and plate glass	Nil	
13	23B	Chinaware and porcelain-ware.	Nil	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14 28	Tin plate and tinned sheets including tin taggers, and cuttings of such plates, sheets or taggers		Nil	
15 32(1)	Vacuum and gas-filled electric lighting bulbs not exceeding 60 watts, but excluding electric lighting bulbs of the type known commercially as "Miniature lamps".		Nil	

[No. 57/70.]

G.S.R. 389.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 33 of the Finance Bill, 1970, which clause has, by virtue of a declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts the excisable goods specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under Item No. 18 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the special duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of the said clause 33 as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) or column (4), as the case may be, of the said Table:

THE TABLE

S. No.	Description	Duty	
		in the case of manu- facturers whose clear- ances of staple fibre of cellulosic origin and of rayon and synthetic yarn con- sisting entirely of ce- llulose derivatives or regenerated cellulose or both, taken together, for home consumption during the financial year 1966-67 did not ex- ceed 36.5 lakh kilo- grams.	in other cases
1	2	3	4
		(Rs. per kilogram)	
1 Yarn spun—			
(a) wholly out of synthetic staple fibre of cellulosic origin		Nil	Nil
(b) partly out of such staple fibre and partly out of cotton, provided that the cotton content of the yarn does not exceed 40 per cent of its weight		Nil	Nil

1-	2	3	4
			(Rs. per kilogram)
2 Rayon and synthetic yarn consisting entirely of cellulose derivatives or regenerated cellulose or both			
(i) below 75 deniers	2.40		2.80
(ii) 75 deniers and above but below 100 deniers	1.70		1.75
(iii) 100 deniers and above but below 120 deniers	1.15		1.15
(iv) 120 deniers and above but below 150 deniers	0.85		1.00
(v) 150 deniers and above but below 350 deniers	0.75		0.90
(vi) 350 deniers and above	Nil		Nil

[No. 58/70.]

G.S.R. 381.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (i) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 33 of the Finance Bill, 1970, which clause has, by virtue of a declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts strawboard and millboard falling under Item No. 17(3) of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the special duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of the said clause 33.

Explanation—For the purposes of this notification,—

- (1) 'millboard' means any unbleached homogeneous board, having thickness exceeding 0.50 millimetres and made out of mixed waste papers with or without screenings and mechanical pulp but without any colouring matter being added thereto;
- (2) 'strawboard' means a board made wholly or predominantly from partially cooked unbleached straw or bagasse or grasses or a mixture of these:

Provided that—

- (i) the quantity of any other material used shall not exceed one-third in weight of the total weight of the ingredients.
- (ii) such board shall not be specially compressed and shall not have any paper pasted on either surface.

[No. 59/70.]

G.S.R. 382.—In exercise of the powers conferred by rules 12 and 12A of the Central Excise Rules, 1944, read with clause 33 of the Finance Bill, 1970, which clause has, by virtue of a declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby directs that where any goods have been subjected to a special duty of excise under the aforesaid clause and where on the export of such goods the Central Government has, by a notification issued under the said rules 12 and 12A, permitted the rebate of excise duty paid on such goods under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), a rebate of the special duty of excise shall also be made in full subject to the same conditions as govern the rebate of excise duty.

[No. 60/70.]

G.S.R. 383.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 33 of the Finance Bill, 1970, which clause has, by virtue of a declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts excisable goods referred to in sub-clause (1) of clause 33 of the aforesaid Bill and in respect of which goods a notification under sub-rule (1) of rule 8 of the aforesaid Rules has been issued by the Central Government exempting them from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the amount of the duty of excise already paid on other excisable goods (hereinafter

referred to as "intermediate products") used in their manufacture and which are specified in the respective notification, from so much of the special duty of excise leviable thereon as is equivalent to the special duty of excise already paid on the intermediate products specified in the respective notification.

[No. 61/70.]

G.S.R. 384.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 33 of the Finance Bill, 1970, which clause has, by virtue of a declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts silk fabrics falling under sub-item (2) of Item No. 20 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, (1 of 1944), from the whole of special duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of clause 33 aforesaid.

[No. 62/70.]

G.S.R. 385.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 33 of the Finance Bill, 1970, which clause has, by virtue of a declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts woollen fabrics, falling under sub-item (2) of Item No. 21 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) which have been manufactured from the base fabrics on which no special duty of excise have been paid, from so much of the special duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of clause 33 aforesaid as is in excess of the special duty of excise for the time being leviable on the base fabrics contained in such woollen fabrics falling under sub-item (2) aforesaid:

Provided that where the special duty of excise has already been paid on the base fabrics, fabrics falling under the aforesaid sub-item (2) shall be exempt from the whole of special duty of excise leviable thereon.

[No. 63/70.]

G.S.R. 386.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 33 of the Finance Bill, 1970 which clause has, by virtue of a declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts rayon and artificial silk fabrics, falling under sub-items (2) and (3) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) which have been manufactured from the base fabrics, on which no special duty of excise has been paid, from so much of the special duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of clause 33 aforesaid as is in excess of the special duty of excise for the time being leviable on the base fabrics contained in such rayon or artificial silk fabrics falling under sub-items (2) and (3) aforesaid;

Provided that where the special duty of excise has already been paid on the base fabrics, the fabrics falling under the aforesaid sub-items (2) and (3) shall be exempt from the whole of special duty of excise leviable thereon.

[No. 64/70.]

G.S.R. 387.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 7/69-Central Excises dated the 21st January, 1969.

[No. 65/70.]

E. R. SRIKANTIA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1970

सा० का० नि० 337 :—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 18/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च 1969 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार, उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 1 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली ऐसी चीनी को, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अधीन बचा जाना केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित है उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना उक्त आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3ग) के अधीन ऐसी चीनी के निर्माता को उस चीनी के लिए देय कीमत के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित कीमत के आधार पर क्रमशः बीस प्रतिशत और पांच प्रतिशत पर प्रगणित शुल्क और अतिरिक्त शुल्क से अधिक है :

परन्तु ऐसी कीमत के आधार पर शुल्क और अतिरिक्त शुल्क की गणना करने से पूर्व शुल्क और अतिरिक्त शुल्क की रकम, यदि कोई हो, जो पूर्वोक्त कीमत में जोड़ी गई हो, घटा दी जाएगी।

[सं० 15/70]

सा० का० नि० 338 :—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 92—ख के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचनाओं में, जो नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट अंकों के लिए उसके स्तम्भ 4 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

सारणी

क्रम] संख्या	अधिसूचना सं० और तारीख	निम्नलिखित के लिए	निम्नलिखित का प्रति- स्थापन
1	2	3	4
1.	सं० 57/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 15-4-1967	"730" "970" "1470" "1950"	"590" "780" "1160" "1520"

1	2	3	4
2.	सं० 58/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 15-4-1967.	"1090" "1470" "2190" "2920"	"880" "1180" "1720" "2280"

[सं० 16/70]

सां० का० मि० 339 :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 1 ख के अन्तर्गत आने वाले उन तैयार या परिरक्षित खाद्यों को जो इससे उपावृत्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट खाद्यों से भिन्न हैं, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से एतद्वारा छूट देती है।

अनुसूची

- मांस, मांस-क्षेप और जीवजन्तुओं के हडिर की सांसेज तथा तत्सदृश निमित्तियां ;
- अन्य तैयार किया गया या परिरक्षित मांस या मांस-क्षेप ;
- मांस-निष्कर्ष और मांस-रस ;
- तैयार की गई या परिरक्षित मछली जिसके अन्तर्गत कवियर और कवियर के प्रति-स्थानी आते हैं ;
- क्रस्टेशियन और मोलस्क जो तैयार किये गये या परिरक्षित हों ;
- सूप और ब्राथ जो द्रव घन या पाउडर के रूप में हों ;
- (क) बोटलबन्द या डिब्बा-बन्द (फल काष्ठफलों से भिन्न), जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए फल उत्पाद आदेश, 1955 की द्वितीय अनुसूची के भाग 5 के अधीन विनिर्दिष्ट हैं ;
(ख) सांस केचप और तत्सदृश निमित्तियां ;
- जाम, फलों की जैलिया, मार्मलेड, फल-पूरी और फल-पेस्ट जो पकाकर तैयार किये गये हों, चाहे उनमें ऊपर से चीनी मिलाई गई हो या नहीं : टमाटर पूरी और टमाटर पेस्ट ;
- फलों के सिरप, कश, स्क्वैश कोरडियलस, फलों का रस, ग्राम का नैक्टर, फलों के रस के कन्सट्रेट, फलों के पल्प के कन्सट्रेट, शाक-सब्जी के रस, जिजर कोकटेल, जिजर ऐल, जिजर बियर, संश्लिस्ट सिरप और शर्बत तथा परोसे जाने के लिये तैयार पेय (किन्तु ऐरटेड वाटर को छोड़कर) ;

10. कान प्लेक्स, व्हीट प्लेक्स, पर्ल बारल, जई और सेमकीच ;
11. टिनो और पत्तियों के पैकटों में पैक की गई निर्जलित मटर ;
12. दुग्ध पाउडर, जिसमें ऐमा पाउडर नहीं है जो शिशुओं को खिलाने के लिये विशेष रूप से तैयार किया गया हो ;
13. संघनिता दूध, चाहे उसे मीठा बनाया गया हो या नहीं ;
14. आटे को, स्टार्च को, मास्ट-निष्कर्ष को या मास्ट-जी को आधार बनाकर तैयार की गई निर्मितियाँ, और दुग्ध खाद्य जिन्हें दूध या पानी में केवल मिला देने से या दूध या पानी में उबाल लेने से पेय तैयार करने के उपयोग में लाया जा सकता है, पंगुओं के लिये खाद्य और दलिया, चाहे उसमें कोफा अन्तर्विष्ट हो या न हो, किन्तु इसके अन्तर्गत शिशुओं के खाद्य अर्थात् शिशुओं को खिलाने के लिये विशेष रूप से तैयार किये गये खाद्य नहीं है ;

15. मेज पर परोसी जाने वाली जैली या जैली के कण, कस्टर्ड पाउडर, आइसक्रीम पाउडर ।

स्वीकृतिकरण :- निम्नलिखित पदार्थों के बारे में यह नहीं समझा जायेगा कि वे इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले तैयार या परिरक्षित खाद्य हैं, अर्थात् :-

- (1) मांस, खाद्य मांस-क्षेप, मछली, क्रस्टेशियन या मोलस्क जिन्हें केवल टंडा किया गया हो, जमाया गया हो, नमकीन न बनाया गया हो, नमक के पानी में परिरक्षित किया गया हो, सुखाया गया हो या धुआया गया हो ;
- (2) क्रस्टेशियन, शैल में, जिसे पानी में किफ उबाला गया हो ;
- (3) आचार ;
- (4) चटनी ;
- (5) कास्टफल, किसी भी रूप में जिसके अन्तर्गत काजू और मूंगफली भी है ;
- (6) प्रसाद या प्रसादम (जैसे पालानी पंचामृतम्) की कोई वस्तु, जो किसी उपासनागृह में चढ़ाने के लिये आशयित हो ।

[सं० 17/70]

सा० का० नि० 340:- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 1 घ के अन्तर्गत आने वाले ऐरेटेड वाटर को उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु उपर्युक्त छूट ऐसे किसी ऐरेटेड वाटर को लागू नहीं होगी :-

- (1) जो किसी बड़ नाम के अधीन, अर्थात् व्यापार और वाणिज्य चिन्ह अधिनियम, 1958 (1958 का 43) के अधीन किसी नाम या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के अधीन, बेचा जाता है ; और
- (2) जिसमें या जिसके विनिर्माण के संबंध में कोई प्रक्रिया मामूली तौर से शक्ति की सहायता से चलाई जाती है ।

[सं० 18/70]

सा० का० नि० 341:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 100/61 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 20 अप्रैल 1961 को अधिकांश करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 2 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली काफी की किस्मों को जो सामान्यतः रोबस्टा लाइबीरिया एक्सेलिया अथवा रोबस्टा हाइब्रिड के नाम से जानी जाती हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना पचपन रुपये प्रति क्विंटल से अधिक हो ।

[सं० 19/70]

सा० का० नि० 342:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 24/65—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी 1965 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में मद संख्या 4 II (2) से सम्बन्धित क्रम संख्या 2 के सामने की प्रविष्टियां निकाल दी जाएंगी ।

[सं० 20/70]

सा० का० नि० 343:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 4 II (2) के अन्तर्गत आने वाली तथा इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट सिगरेटों को उन पर उद्ग्रहणीय उतने सीमा-शुल्क से छूट देती है जितना उसके स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित शुल्क से अधिक है :

सारणी

वर्णन	शुल्क
(1)	(2)

ऐसी सिगरेटें जिनका मूल्य प्रति 1,000 —

(i) 25 रुपये से अधिक है

125 प्रतिशत मूल्यानुसार

(1)

(2)]

(ii) 9.50 रु० से अधिक है किन्तु 25 रुपये से अधिक नहीं है

80 प्रतिशत मूल्यानुसार

(iii) 9.50 रु० से अधिक नहीं है

42½ प्रतिशत मूल्यानुसार

[सं० 21/70]

सा० का० नि० 344 :—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 105/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 मई, 1967 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 4 II (2) के अन्तर्गत आने वाली और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट सिगरेटों को, ऊपर प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

सारणी

वर्णन	शुल्क
(1)	(2)
ऐसी सिगरेटें जिनका मूल्य—	
(i) 25 रु० प्रति हजार से अधिक है	24 प्रतिशत मूल्यानुसार
(ii) 9.50 रु० प्रति हजार से अधिक है किन्तु 25 रु० प्रति हजार से अधिक नहीं है	15 प्रतिशत मूल्यानुसार
(iii) 9.50 रु० प्रति हजार से अधिक नहीं है	5 प्रतिशत मूल्यानुसार

[सं० 22/70]

सा० का० नि० 345 :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 92/66—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 6 जून, 1966 से उपाबद्ध सारणी में “205.25” तथा “50.75” अंकों के लिए क्रमशः “225.25” तथा “70.75” अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 23/70]

सा० का० नि० 346 :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ऐसे पिगमेंटों, रंगों, पेंटों, एनेमलों, वारनिशों ब्लैक्स और सैलूलोज लैक्स को जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 14 के अन्तर्गत आते हैं, और ऐसे किसी कारखाने में जिसमें उप-युक्त कोई भी पदार्थ शक्ति की सहायता से विनिर्मित नहीं किए जाते हैं उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० 24/70]

सा० का० नि० 347 :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मिश्रित उर्वरकों को जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की मद संख्या 14 ज के अन्तर्गत आते हैं और शक्ति की सहायता से दो या अधिक उर्वरकों से जिनमें से सभी पर उत्पाद-शुल्क की उपयुक्त रकम या जैसी भी स्थिति हो भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अधीन अतिरिक्त शुल्क दे दिया गया है उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “मिश्रित उर्वरक” शब्दों से उर्वरकों के ऐसे मिश्रण अभिप्रेत हैं जिनमें एक से अधिक न्यूट्रिएन्ट (नाइट्रोजन, फासफेट या पोटाश) अन्तर्विष्ट हों और जिनमें राक्त फासफेट से विनिर्मित, सुपर फासफेट जैसे, एकल न्यूट्रिएन्ट उर्वरक नहीं आते हैं।

[सं० 25/70]

सा० का० नि० 348 :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश करती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 59/64—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1964 में “पोली-यूरेथेन फोम और कड़े प्लास्टिक के लेमिनेटेड बोर्ड और शीट के सिवाए” शब्दों के लिए “(i) पोली-यूरेथेन फोम, (ii) कड़े प्लास्टिक बोर्ड और शीट चाहे वे लेमिनेटेड हों या न हों और (iii) फ्लेक्सिबल पोलोविनायल क्लोराइड शीट जिनमें कोई टैक्सटाइल पदार्थ न हो के सिवाए” शब्द, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 26/70]

सा० का० नि० 349 :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार फ्लैक्सिबल पोलीविनायल क्लोराइड शीटों को जिनमें कोई टेक्सटाइल पदार्थ न हो और जो केन्द्रीय सरकार उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 15 क की उपमद (2) के अन्तर्गत आते हों, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना 25 प्रतिशत मूलानुसार से अधिक हो।

[सं० 27/70]

सा० का० नि० 350 :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 155/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 7 जून 1969 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार पोली-यूरेथेन फोम और कड़े लास्टिक बोर्ड और शीटों को चाहे वे लेमिनेटेड हों या न हों और जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 15 क की उपमद (2) के अन्तर्गत आती हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना 25 प्रतिशत मूलानुसार से अधिक हो :

परन्तु यदि पोली-यूरेथेन फोम या कड़े लास्टिक बोर्ड या शीट के विनिर्माण में ऐसे कोई प्लास्टिक पदार्थ सैलोफेन पेपर या काटन फेब्रिक्स का प्रयोग किया जाता है जिन पर भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अधीन याथास्थिति उत्पाद-शुल्क या अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की उपर्युक्त रकम दे दी गई है तो इस प्रकार दी गई उत्पाद-शुल्क की या अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की रकम भी उस शुल्क में समायोजित की जाएगी जो याथास्थिति पोली-यूरेथेन फोम या कड़े प्लास्टिक बोर्ड या शीट पर देय है।

[सं० 28/70]

सा० का० नि० 351 :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार संघिल्ट रबड़ लेटक्स को जिसके अन्तर्गत प्री-ब्लेक्नाइज्ड संघिल्ट रबड़ लेटक्स आता है और जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 16क के अधीन आता है उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना उस शुल्क से अधिक है जो उसकी कुल ठोस अन्तर्वस्तु के वजन के आधार पर प्रगणित किया गया है।

[सं० 29/70]

सा० का० नि० 352 :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 127/66—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 अगस्त, 1966 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 33 क के अन्तर्गत आने वाले ब्राडकास्ट टेलीविजन रिसीवर सैटों को उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना 15 प्रतिशत मूलानुसार से अधिक हो।

[सं० 30/70]

सा० का० नि० 353 :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 207/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 सितम्बर, 1967 में “(ऐसे रेडियोग्राम और रेडियो से भिन्न जिनके केबिनेट में रिकार्ड प्लेयर या रिकार्ड चेंजर फिट करने के लिए फालतू स्थान हो)” कोष्ठक तथा शब्दों के लिए “(i) रेडियोग्राम (ii) रेडियो जिनके केबिनेट में रिकार्ड प्लेयर या रिकार्ड चेंजर फिट करने के लिए फालतू स्थान हो तथा (iii) प्राइकास्ट टेलीविजन रिसीवर सेटों से भिन्न” कोष्ठक, शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 31/70]

सा० का० नि० 354 :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 197/62—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 नवम्बर, 1962 में एतद्द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात्—

2. उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,

(1) स्तम्भ 2 में, क्रम संख्या 1 के सामने—

(i) कन्फैक्शनरी और चाकलेटों से सम्बन्धित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

“कन्फैक्शनरी, कोको पाउडर और चाकलेट जिसमें या जिसके विनिर्माण के सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया मामूली तौर से शक्ति की सहायता से की जाती है।”;

(ii) इस्पात के फर्नीचर से सम्बन्धित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

“अंशतः या पूर्णतः इस्पात से बने इस्पात के फर्नीचर, जिसमें या जिसके सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया मामूली तौर से शक्ति की सहायता से की जाती है चाहे वह सज्जीकृत दशा में की जाए या असज्जीकृत दशा में, तथा ऐसे इस्पात के फर्नीचर के भाग (किन्तु इस्पात से बने छांचेदार एंगिलों और चैनलों को छोड़कर)।”;

(iii) अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात् :—

खाद्य पदार्थ, जिनमें या जिनके सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया मामूली तौर से शक्ति की सहायता से की जाती है।

एरेटेड वाटर्स चाहे वे सुगन्धित प्रथवा मिश्रकृत किए गए हों या न किए गए हों और चाहे उनमें शाक-सब्जियों का या फलों का रस या फलों का गुदा हो या न हो। ग्लूकोज और डेक्सट्रोज।

रसायन, अर्थात् कैल्शियम कार्बाइड, ब्लैचिंग पेस्ट और ब्लैचिंग पाउडर तथा सोडियम हाईड्रोसल्फाइड। संश्लिष्ट रबड़ और संश्लिष्ट रबड़ सेटक्स।

कार्यालय की मशीन और सावित्त ।

स्फुलिंग प्लग ।

स्टेनलेस इस्पात के बने हुए सेफटीरेजर ब्लेड ।

धातुओं के ऐसे आधान, जो विक्रयार्थ माल को पैक करने के लिए मामूली तौर [सि आशयित हों ।

इस्पात के बने खांचेदार एंगल और चैनल ।

आधार धातु के सेफ, तिजोरियां, सुरक्षित कमरे की साइनें, सुरक्षित कमरे के दरवाजे (दरवाजे के फ्रेमों सहित या उनमें रचित) तथा नकदी रखने के और विलेख रखने के बक्से और वैसी ही चीजें ।” ;

(2) क्रम संख्या 9 के सामने स्तम्भ 2 और 4 की प्रविष्टियों के लिए क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

2

4

“इन्स्टैंट चाय” से भिन्न पैकेज चाय जो ऐसे किसी आधान

में पैक की गई हो जिसमें

(क) चाय 25 ग्राम शुद्ध से अधिक न हो

40 पैसे प्रति किलोग्राम

(ख) चाय 25 ग्राम से अधिक हो किन्तु 20 किलोग्राम

शुद्ध से अधिक न हो ।

एक रुपया प्रति किलोग्राम

[सं० 32/70]

सा० का० नि० 355:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 को और संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1970 कहें जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो जाएंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, नियम 1944 में, नियम 13 में “शुल्क-संदत्त खली चाय से बनी पैकेज चाय के सिवाय सभी किस्मों की चाय” शब्दों के लिए “चाय, सभी किस्मों की, उस पैकेज चाय के सिवाय जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 3 की उपमद (2) के अन्तर्गत आती है और शुल्क-संदत्त खली चाय से बनती है” शब्द, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 33/70]

सा० का० नि० 356:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 17/68—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10 फरवरी, 1968 को अधि-क्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उस इस्टेंट चाय को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 3 की उपमद (3) के अन्तर्गत आती है, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से, यदि ऐसी इस्टेंट चाय का निर्यात किया जाय तो, एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० 34/70]

सा० का० नि० 357:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 3 की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाली उस पैकेज चाय को, जो ऐसे किसी किस्म के आधान में पैक हो, जिसमें 25 ग्राम शुद्ध मे अनधिक चाय हो, उस पर उद्ग्रहणीय उतने शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है, जितना 40 पैसे प्रति किलोग्राम और पूर्वोक्त मद की उपमद (1) के अधीन तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि पहले ही न दे दिया गया हो तो, इन दोनों के योग से अधिक हो।

[सं० 35/70]

सा० का० नि० 358:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944, के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/61—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1967 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 3 की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाली पैकेज चाय को, जो ऐसे किसी किस्म के आधान में पैक हो जिसमें चाय 25 ग्राम शुद्ध से अधिक किन्तु 20 किलोग्राम शुद्ध से अनधिक हो, उस पर उद्ग्रहणीय उतने शुल्क से जितना एक रुपया प्रति किलोग्राम और पूर्वोक्त मद की उपमद (1) के अधीन तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि पहले ही न दे दिया गया हो तो, इन दोनों के योग से, अधिक हो।

[सं० 36/70]

सा० का० नि० 359:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 9/61—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1961 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 3 की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाली पैकेज चाय को, जो ऐसे किसी आधान में पैक हो जिसमें चाय 20 किलोग्राम शुद्ध से अधिक हो, उस पर उद्ग्रहणीय उतने शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना पूर्वोक्त मद की उपमद (1) के अधीन तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक हो।

[सं० 37/70]

सां. कां. निं. 360:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 3 की उपमद (1) तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 23/62—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 अप्रैल, 1962 में एतद्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती, है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में—

(i) “केन्द्रीय सरकार पैकेज चाय के सिवाए सभी किस्मों की चाय पर शुल्क की निम्नलिखित दरें एतद्वारा नियत करती है” शब्दों के लिए “केन्द्रीय सरकार पूर्वोक्त प्रथम अनुसूची की मद संख्या 3 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली चाय पर शुल्क की निम्नलिखित दरें एतद्वारा नियत करती है” शब्द, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) सारणी में—

(क) “नए पैसे” शब्दों के लिए “रुपये” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) तीसरे स्तम्भ में “25.0”, “40.0”, “50.0”, “55.0” और “65.0” अंकों के लिए क्रमशः “0.25”, “0.50”, “1.50”, “1.00” और “1.15” अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 38/70]

सां. कां. निं. 361:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 35/64—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1964 में जैसा कि उस के बाद में संशोधन किया गया था, एतद्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है:—

उक्त अधिसूचना में सारणी में स्तम्भ 2 में “18 पैसे प्रति किलोग्राम” तथा “28 पैसे प्रति किलोग्राम” प्रविष्टियों के लिये क्रमशः “14 पैसे प्रति किलोग्राम” और “22 पैसे प्रति किलोग्राम” प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी।

[सं. 39/70]

सां. कां. निं. 362:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 55/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 में एतद्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में सारणी में क्रम संख्या 1 की उपमद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

(1)

(2)

(3)

“(ii) गैर-सेलूलो जिंक उद्भव के

(क) एकाइलिक फाइबर

4*50

(1)	(2)	(3)
(ख) 2 डेनियर से अनधिक के पोलिस्टर फाइबर		25' 00
(ग) अन्य		21' 00"

[सं० 40/70]

सा० का० नि० 363:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 72/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1969 में एतद्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में “लपेट” शब्द के पश्चात् “बुटा फब्रिक, गोल जाली की मच्छरदानी” शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

[सं० 41/70]

सा० का० नि० 364:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 96 अ के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 41/65—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 28 फरवरी, 1965 में एतद्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में,—

- (1) प्रथम परन्तुक निकाल दिया जाएगा।
- (2) द्वितीय परन्तुक में “परन्तु यह और भी कि” शब्दों के लिए “परन्तु” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (3) तृतीय परन्तुक में “परन्तु यह भी कि” शब्दों के लिए “परन्तु यह और भी कि” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 42/70]

सा० का० नि० 365:—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का मास) अधिनियम 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 91/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1969 में एतद्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम संख्या 16 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां निकाल दी जाएंगी।

[सं० 43/70]

सा० का० नि० 366:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 75/69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 22 की उप-मद (1) के अन्तर्गत आने वाले और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रसंस्कृत रेयन और कृत्रिम रेशमी फैब्रिक को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो।

सारणी

क्रम संख्या	वर्णन	शुल्क
(1)	(2)	(3)
	रेयन या कृत्रिम रेशमी फैब्रिक, जिनका मूल्य	
(क)	2. 50 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक न हो	दो प्रतिशत मूल्यानुसार
(ख)	2. 50 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो किन्तु 3. 50 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक न हो	साढ़े तीन प्रतिशत मूल्यानुसार
(ग)	3. 50 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो किन्तु 5 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक न हो	पांच प्रतिशत मूल्यानुसार
(घ)	5 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो	साढ़े छह प्रतिशत मूल्यानुसार

र : टीकरण:—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए “प्रसंस्कृत” शब्द से वे सभी प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं जो हमवार रोलरों से कलेन्डर करने की प्रक्रिया से भिन्न शक्ति या माप की सहायता से मामूली तौर से की जाती हैं।

सा० का० नि० 367:—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची को मद संख्या 22 की उप-पद (1) के अन्तर्गत आने वाले प्रसंस्कृत रेयन और कृत्रिम रेशमी फैब्रिक को, जो इससे उपायुक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, ऊपर प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उत्तरे अतिरिक्त शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानीय प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो।

साक्षी.

क्रम संख्या	वर्णन	शुल्क
(1)	(2)	(3)
रेयन या कृत्रिम रेशमी फैब्रिक जिनका मूल्य		
(क)	2.50 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक न हो	0.6 प्रतिशत मूल्यानुसार
(ख)	2.50 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो किन्तु 3.50 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक न हो	डेढ़ प्रतिशत मूल्यानुसार
(ग)	3.50 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो किन्तु 5 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक न हो	दो प्रतिशत मूल्यानुसार
(घ)	5.00 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो	2.2 प्रतिशत मूल्यानुसार

स्प. टी. करण:—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए “प्रसंस्कृत” शब्द से वे सभी प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं जो हमवार रोलरों से कलेन्डर करने की प्रक्रिया से भिन्न शक्ति या माप की सहायता से मामूली तौर से की जाती हैं।

सा० का० नि० 368:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के ऐलुमिनियम को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 27 की उन उप-मदों के अन्तर्गत आता है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है, उक्त सारणी के (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, एतद्वारा छूट देती है।

सारणी

क्रम संख्या	उप-मद संख्या	वर्णन	शुल्क	शर्तें
1	2	3	4	5
1	(ख) और (ग)	किसी रूप या नाप की प्लेटें, शीटें, बृत्त, छीलनें और पन्थियाँ।	कुछ नहीं	यदि केन्द्रीय सरकार के आर्डिनेन्स कारखाने में उत्पादित की जाएं और आर्डिनेन्स कारखानों द्वारा उपभोग के लिए अथवा केन्द्रीय सरकार के विभागों को प्रदाय करने के लिए प्राशयित हों।
2	(क)	किसी अपरिष्कृत रूप में ऐल्युमिनियम (जिसके अन्तर्गत सिल्लियां, शलाकें, ब्लाक, फट्टियां, बिलट, गोलियां तथा छर्रे आते हैं), तार वाले बार, तार वाले राड और कास्टिंग।	कुछ नहीं	यदि निम्नलिखित किन्हीं पदार्थों से या उनके किसी मिश्रण से विनिर्मित हो, अर्थात्— (1) पुराने ऐलुमिनियम के टुकड़े, या (2) (क) प्राकृतिक धातु से प्राप्त टुकड़े, या (ख) किसी अपरिष्कृत रूप में प्राकृत ऐलुमिनियम; या (ग) ऊपर (क) और (ख) में वर्णित पदार्थों का मिश्रण। जिस पर, यथास्थिति, उत्पाद कर की विहित रकम या भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32)

1	2	3	4	5
				की धारा 2-क के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क दिया जा चुका है ।
3	(क)	ऐलुमिनियम की मेल या छादी से प्राप्त की गई ऐलुमिनियम ।	कुछ नहीं	
4	(ख)	वृत्त जिनकी मोटाई 0.56 मि० मी० या उससे अधिक हो किन्तु 1.22 मि०मी० से अधिक न हो ।	कुछ नहीं	<p>(1) यदि वृत्तों के विनिर्माण में निम्नलिखित किन्हीं पदार्थों या उनके मिश्रणों से बनाए गए अपरिष्कृत ऐलुमिनियम का प्रयोग किया गया हो, अर्थात्—</p> <p>(क) पुराने ऐलुमिनियम के टुकड़े; या</p> <p>(ख) (i) प्राकृत धातु से प्राप्त टुकड़े; या</p> <p>(ii) किसी अपरिष्कृत रूप में प्राकृत ऐलुमिनियम; या</p> <p>(iii) ऊपर (i) और (ii) में वर्णित पदार्थों का मिश्रण जिस पर, यथा-स्थिति, शुल्क की विहित दर या भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2-क के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क दिया जा चुका है ।</p> <p>(2) ऐलुमिनियम के वृत्त उन उत्पादकों द्वारा विनिर्मित किए जाएं जो उसी कारखाने में या भारत में किसी अन्य कारखाने में बाक्ससाइट या ऐलुमिना से या दोनों से प्राकृत ऐलुमिनियम का उत्पादन करते हों ।</p>

1	2	3	4	5
5	(ख) ऐलुमिनियम की वस्तुएं (ग) (घ) और (ङ)	प्रभायं शुल्क की रकम जिस में से आठ सौ पचास रु० प्रति मीट्रिक टन घटा दिए गए हों ।	(1) यदि ऐलुमिनियम की वस्तुओं के विनिर्माण में, निम्नलिखित किन्हीं पदार्थों या उनके मिश्रणों से बनाए गए अपरिष्कृत ऐलुमिनियम का प्रयोग किया गया हो, अर्थात्— (क) पुराने ऐलुमिनियम के टुकड़े; या (ख) (i) प्राकृत धातु से प्राप्त टुकड़े; या (ii) किसी अपरिष्कृत रूप में प्राकृत ऐलुमिनियम; या (iii) ऊपर (i) और (ii) में वर्णित पदार्थों का मिश्रण, जिस पर, यथास्थिति, शुल्क की विहित दर या भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2-क के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क दिया जा चुका है । (2) ऐलुमिनियम की वस्तुएं उन उत्पादकों द्वारा विनिर्मित की जाएं जो उसी कारखाने में या भारत में किसी अन्य कारखाने में बाक्साइट या ऐलुमिनियम से या दोनों से प्राकृत ऐलुमिनियम का उत्पादन न करते हों ।	
	(ख) ऐलुमिनियम शीटें	छह प्रतिशत मूलानुसार	यदि इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाएं ।	

1	2	3	4	5
7	(घ)(उ)	ऐलुमिनियम के पाइप जिनका व्यास निम्नलिखित हो—		
	(i)	5.08 सें० मीटर, 7.62 सें० मीटर, 10.16 सें० मीटर और दीवाल की मोटाई 50 मिलीमीटर।	दस प्रतिशत मूल्यानुसार	यदि उनका उपयोग एकमात्र छिड़काव करने वाले उपस्कर में कृषि सिंचाई प्रयोजनों के लिए किया जाता हो और ऐसे ऐलुमिनियम पाइपों का विनिर्माता जिला कृषि अधिकाारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र पेश करे कि पाइपों का प्रयोग एक मात्र पूर्वोक्त कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
	(ii)	12.70 सें० मीटर और दीवाल की मोटाई 52 मिलीमीटर।		
	(iii)	15.24 सेंटी मीटर और दीवाल की मोटाई 58 मिलीमीटर।		
8	(ख)	वृत्त, जिनकी मोटाई 0.56 मिलीमीटर या उससे अधिक है किन्तु 1.22 मिलीमीटर से अधिक नहीं है।	साढ़े सत्रह प्रतिशत मूल्यानुसार	

[सं० 46/70]

सां० कां० निं० 369:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 24/65—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1965 में एतद्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम संख्या 11 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां निकाल दी जाएंगी।

[सं० 47/70]

सां० कां० निं० 370:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, टीन की प्लेटें और टीन की शीटें, जिनके अन्तर्गत उनकी कतरंजें आती हैं और जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 28 के अन्तर्गत आती हैं उन तर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से एतद्वारा छूट देती है जितना, यथास्थिति उत्पाद-शुल्क या भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2-क के अधीन उस अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के बराबर हो जो अलेपित प्लेटों या शीटों या छीलनों पर दिये जा चुका है।

[सं० 48/70]

सां. कां. नि० 371:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, ऐसे घरेलू रेफ्रिजरेटों को, जिनकी क्षमता 165 लिटर से अधिक न हो और जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 29-क की उप-मद (1) के अन्तर्गत आते हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना तीस प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक हो।

[सं० 49/70]

सां. कां. नि० 372:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, प्रशीतक और वातानुकूलन साधित्रों और मशीनरी के भागों को जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की मद संख्या 29-क की उप-मद (3) के अन्तर्गत आते हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना बालीस प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक हो, किन्तु यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी, अर्थात्—

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर का समाधान हो जाय कि उपर्युक्त भागों को ऐसे प्रशीतक और वातानुकूलन साधित्रों या मशीनरी में प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित है जो,—

(i) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या लोक पूर्त संस्थान द्वारा संचालित किसी अस्पताल में; या

(ii) किसी कारखाने में पहले से ही लगी है या लगाई जानी है ;

(ख) उस पूर्वोक्त अस्पताल का अध्यक्ष या कारखाने का मुख्य कार्यपालक, जिसके लिए प्रशीतक और वातानुकूलन साधित्र या मशीनरी अपेक्षित है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर को लिखित रूप में यह बचन दे कि वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के समुचित अधिकारी का,—

(i) प्रशीतक या वातानुकूलन साधित्रों या मशीनरी के लिए जो, यथास्थिति, ऐसे अस्पताल या कारखाने में पहले से ही लगी हैं, अपेक्षित भागों की दशा में, शुल्क दे देने के पश्चात् विनिर्माता द्वारा उन भागों की निकासी कर लेने की तारीख से एक मास के भीतर या बढ़ाई गई ऐसी कालावधि के भीतर जिसे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर अनुज्ञात करें,

(ii) प्रशीतक या वातानुकूलन साधित्रों या मशीनरी के लिए, जो, यथास्थिति, ऐसे अस्पताल या कारखाने में लगाई जानी है, अपेक्षित भागों की दशा में, शुल्क दे देने के पश्चात् विनिर्माता द्वारा उन भागों की निकासी कर लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर या बढ़ाई गई ऐसी कालावधि के भीतर जिसे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर अनुज्ञात करें,

यह समाधान करेगा कि यथास्थिति ऐसे अस्पताल या कारखाने में पहले से ही लगी हुई या लगाये जाने वाली प्रशीतक या वातानुकूलन साधित्रों या मशीनरी के उन भागों का वास्तविक उपयोग

किया गया है, तथा व्यतिक्रम की दशा में शुल्क का ऐसा भाग संदत्त करेगा जिसे इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त है ; और

(ग) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाय ।

व्याख्या:—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए “कारखाना” से ऐसा परिसर अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत उसकी ऐसी प्रसीमाएं आती हैं जहां कोई माल विनिर्मित किया जाता है या भंडार में रखा जाता है किन्तु उसके अन्तर्गत ऐसा परिसर नहीं आता जो कार्यालय के प्रयोजनों के प्रयोग में लाया जाता है ।

[सं० 50/70]

सा० का० नि० 373:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कार्यालय की मशीनों और साधनों को [जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 33-घ के अन्तर्गत आते हैं], जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट मशीनों और साधनों से भिन्न हैं, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है ।

अनुसूची]

1. टाइपराइटर, जिनके अन्तर्गत प्रगणना युक्तियों का समावेश करने वाले टाइपराइटर भी हैं ।
2. चैक लिखने वाली मशीनें ।
3. टेलीप्रिंटर ।
4. गणना करने वाली मशीनें ।
5. लेखा मशीनें ।
6. नकदी रजिस्टर करने वाली मशीनें (चाहे वे नकदी रजिस्टर या किसी अन्य नाम से ज्ञात हों)
7. डाक टिकट फ्रैकिंग मशीनें ।
8. स्वतः चालित विक्रय मशीनें जिनके अन्तर्गत टिकट जारी करने वाली मशीनें भी हैं ।
9. टोटलाइजेंटर्स ।
10. सांख्यिकीय मशीनें जिनके अन्तर्गत छंटाई और सारणीयन मशीनें भी हैं ।
11. पंच करने वाली मशीनें ।
12. पड़ताल करने वाली मशीनें ।
13. रिप्रोड्यूसिंग मशीनें ।
14. इंटरप्रेटिंग मशीनें ।
15. हैक्टोग्राफ या स्टेनसिल डुप्लीकेटिंग मशीनें ।
16. पता लिखने वाली मशीन ।
17. सिक्कों की छंटाई करने वाली मशीनें ।

18. सिक्के गणना करने और लपेटने वाली मशीनें ।
19. परफोरेटिंग और स्टेप्लिंग मशीनें ।
20. पत्र मोड़ने वाली मशीनें ।
21. पत्र खोलने वाली मशीनें और पत्र बन्द करने वाली या मुद्राबन्द करने वाली मशीनें ।
22. स्टाम्प रद्द करने वाली मशीनें ।
23. लपेटने वाले कागज या गोंद लगे टेप परिदत्त करने वाली मशीनें ।
24. गोंद लगे कागज या स्टाम्पों को भिगोने वाली मशीनें ।
25. कागज के ऐसे किस्म के शीर्षक यंत्र जो गुप्त रद्दी नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं ।
26. श्रुत लेखन मशीनें ।
27. इन्टरकाम युक्तियां ।
28. फोटो कापिंग मशीनें ।
29. समय और हाजिरी लिखने वाली मशीनें ।
30. कम्प्यूटर (जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय प्रक्रिया एक और परिमीय युक्तियां आती हैं) तथा अन्य आंकड़ा प्रक्रिया मशीनें ।

[सं० 51/70]

सा० का० नि० 374:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 40 के अन्तर्गत आने वाले इस्पात के फर्नीचर के भागों को, जो उन भागों से भिन्न हों जिन्हें ऐसी विशेष आकृति या डिजाइन का बनाया गया हो कि वे इस्पात के फर्नीचर के आवश्यक संघटकों के रूप में सुगमता से पहचाने जा सकें और जिनसे, अन्य भागों के संयोजन से, बोल्ट और नटों की सहायता से या उनके बिना इस्पात फर्नीचर की कोई चीज सज्जित की जा सकती हो, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से एतद् द्वारा छूट देती है ।

[सं० 52/70]

सा० का० नि० 375:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 46 के अन्तर्गत आने वाले फैस पाउडर के केशों और चश्मे के केशों को उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है ।

[सं० 53/70]

सा० का० नि० 376:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व

विभाग) की अधिसूचना संख्या 223/62—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख, 29 दिसम्बर, 1962 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में—

(i) मद संख्या 10 के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“10क. रेयन या कृत्रिम रेशम फैब्रिक, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 22 की उप मद (1) के अन्तर्गत आते हैं।”

(ii) मद संख्या 31 के लिए निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“31. इस्पात के फर्नीचर और ऐसे फर्नीचर के भाग”।

[सं० 54/70]

सा० का० नि० 377:—केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को एतद्वारा विखण्डित करती है अर्थात्:—

- (1) सं० 188/61—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 23 दिसम्बर, 1961
- (2) सं० 91/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 26 मई 1967
- (3) सं० 119/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 14 जून 1967
- (4) सं० 120/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 14 जून 1967
- (5) सं० 169/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 24 जुलाई 1967
- (6) सं० 240/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 28 अक्तूबर 1967
- (7) सं० 139/68—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 6 जुलाई 1968
- (8) सं० 140/68—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 6 जुलाई 1968
- (9) सं० 148/68—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 18 जुलाई 1968
- (10) सं० 194/68—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 23 नवम्बर 1968
- (11) सं० 68/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च 1969
- (12) सं० 81/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च 1969
- (13) सं० 138/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 13 मई 1969
- (14) सं० 142/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 13 मई 1969

[सं० 55/70]

सा० का० नि० 378:—वित्त अधिनियम 1969 (1969 का 14) की धारा 31 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) में वर्णित सभी उत्पाद-शुल्क-योग्य माल को उस धारा की उपधारा (4) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के साथ पठित उक्त उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने विशेष उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितने का सम्बन्ध उस कालावधि से है जो 1 मार्च 1970 से आरम्भ हो कर 31 मार्च 1970 को समाप्त होती है।

[सं० 56/70]

सा० का० नि० 379:—वित्त विधेयक 1970 के खंड 33 के जो खण्ड करों का अन्तिम संग्रहण अधिनियम 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है उपखण्ड (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) (जिसे इस में इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की प्रथम अनुसूची की मदों के जो उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट हैं अन्तर्गत आने वाले उत्पाद-शुल्क-योग्य माल को पूर्वोक्त खण्ड 33 के उपखण्ड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने विशेष उत्पाद-शुल्क से उस सारणी के स्तम्भ 5 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए एतद्द्वारा छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ 4 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो:—

सारणी

क्रम सं०	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद संख्या	वर्णन	तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधिनियम के अधीन उद्- ग्रहणीय शुल्क, शुल्क के प्रतिशत के रूप में	शर्त
1	2	3	4	5
1	2(2)	काफी जो वाणिज्यिक रूप से “इस्टैट काफी” के नाम से ज्ञात है	कुछ नहीं	

1	2	3	4	5
2	3(1)	सभी किस्मों की चाय (पैकेज चाय और इंस्टैंट चाय को छोड़ कर)	कुछ नहीं	
3	6	मोटर स्ट्रिट	कुछ नहीं	
4	8	परिष्कृत डीजल तेल और वाष्पन तेल	कुछ नहीं	
5	9	डीजल तेल जो अन्यथा वि - निर्दिष्ट नहीं है	कुछ नहीं	
6	13	वनस्पति उत्पाद	कुछ नहीं	
7	14घ	संश्लिष्ट जैव रंजक द्रव्य (जिसके अन्तर्गत वर्णक रंजक द्रव्य भी हैं) और संश्लिष्ट जैव व्युत्पन्न वस्तुएं जो किसी रंजक प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाती हैं।	कुछ नहीं	
8	15ख	सिलोफन	कुछ नहीं	
9	16	मोटर गाड़ियों के लिए टायर किन्तु 1 अप्रैल 1970 को आरम्भ होने वाली तथा 31 मार्च 1971 को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान (जिसके अन्तर्गत ये दोनों ही तारीखें आती हैं) गृह-उपभोग के लिए प्रथम निकासी पर ही 1.25 करोड़ रुपये के कुल मूल्य तक।	कुछ नहीं	यदि 1969-70 के वित्तीय वर्ष के दौरान गृह उपयोग के लिए विनिर्माता द्वारा निकासी किए गए मोटर गाड़ियों के टायरों का कुल मूल्य 4 करोड़ रुपये से अधिक न हो।
10	17 (3)	75 ग्राम प्रति वर्गमीटर से अनधिक पदार्थ का छपाई और लिखाई का कागज (जिसके अन्तर्गत उसकी सभी अविरंजित, बादामी क्रीम-लेड और क्रीमबोव	कुछ नहीं	यदि ऐसे कागज में उसके पदार्थ में पल्प के रूप में कोई चीवर न हो अथवा यदि उसमें कोई चीवर हो तो उसमें उसके पदार्थ में 40 प्रतिशत से अनधिक वगास,

1	2	3	4	5
		किस्में आती है किन्तु अन्य रंगीन या आरंजित किस्में नहीं आती)		पटसन के वृत्त या अनाज तृण भी हों ।
		स्पष्टीकरण— इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, कागज की सफेदी बढ़ाने के लिए रंग डालना, कागज को रंगना या आरंजित करना नहीं समझा जाएगा ।		स्पष्टीकरण 'पल्लव के रूप में बीवर' पद के अन्तर्गत ऐसा पल्प नहीं आता जो कटे-फटे वस्त्रों के गंदे चिथड़ों से, या (निवास गृहों या सड़कों या गंदे ढेरों से इकट्ठा किए गए) कपड़े के गंदे टुकड़ों से, या वस्त्रों के ऐसे ही कटेफटे टुकड़ों एवं कपड़े के गंदे टुकड़ों से बना हो ।
11. 18क		सूती टिक्स्ट सूत और धागा, सभी किस्म का ।	कुछ नहीं	
12. 23क		कांच और कांच का सामान जो शीट ग्लास और प्लेट से भिन्न हो ।	कुछ नहीं	
13. 23ख		चाइनावेयर और पोर्सलेनवेयर	कुछ नहीं	
14. 28		टिन प्लेट और टीन की शीटें, जिनके अन्तर्गत टीन टैग्स आती है और ऐसी 'लेटों', शीटों और टैगों की कतरने	कुछ नहीं	
15. 32(1)		60 वाट से अधिक के बिजली के निर्वाण या गैस भरे प्रकाश बल्ब किन्तु इसके अन्तर्गत वार्षिज्यिक रूप से 'मिनिएचर' लैम्प के नाम से ज्ञात बिजली के प्रकाश बल्ब नहीं आते ।	कुछ नहीं	

सा० का० मि० 380:—वित्त विधेयक 1970 के खण्ड 33 के जो खण्ड करों का अन्तिम संग्रहण अधिनियम 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है उपखण्ड (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क-योग्य माल को जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 18 के अन्तर्गत आता है उक्त खण्ड 33 के उपखण्ड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के यथास्थिति स्तम्भ 3 या स्तम्भ 4 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो :

सारणी

क्रम संख्या	वर्णन	शुल्क	अन्य वशाओं में
	ऐसी विनिर्मितियों की वशा में जिनकी सैलोलोजिक उद्भव के तथा रेयन और संश्लिष्ट सूत के जो पूर्णतया सैलूलोज व्युत्पन्नों से या पुनयोजित सैलूलोज से या दोनों से साथ साथ मिलकर बना है तन्तुक फाइबर की निकासी गृह उपभोग के लिए, 1966-67 के वित्तीय वर्ष के दौरान 36.5 लाख किलोग्राम से अधिक की नहीं थी ।		
1	2	3	4
1	(क) सैलूलोजिक उद्भव के पूर्णतया संश्लिष्ट तन्तुक फाइबर से बुना हुआ सूत	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ख) अंशतया ऐसे तन्तुक फाइबर से और अंशतया रूई से बुना हुआ सूत परन्तु यह तब जब सूत में रूई की मात्रा उसके वजन के 40 प्रतिशत से अधिक न हों ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	रेयन और संश्लिष्ट सूत जो पूर्णतया सैलूलोज व्युत्पन्नों या पुनयोजित सैलूलोज से या दोनों से मिलकर बना हो ।		
	(i) 75 डेनियर से नीचे	2.40	2.80
	(ii) 75 डेनियर्स और उससे ऊपर किन्तु 100 डेनियर से नीचे	1.70	1.75
	(iii) 100 डेनियर और उससे ऊपर किन्तु 120 डेनियर से नीचे	1.15	1.15
	(iv) 120 डेनियर और उससे ऊपर किन्तु 150 डेनियर से नीचे	0.85	1.00
	(v) 150 डेनियर और उससे ऊपर किन्तु 350 डेनियर से नीचे	0.75	0.90
	(vi) 350 डेनियर और उससे ऊपर	कुछ नहीं	कुछ नहीं

सा० का० नि० 381:—वित्त विधेयक 1970 के खण्ड 33 के जो खण्ड करें का अन्तिम संग्रहण अधिनियम 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है उपखण्ड (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 17(3) के अन्तर्गत आने वाले स्ट्राबोर्ड और मिलबोर्ड को उक्त खण्ड 33 के उपखण्ड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए

- (1) 'मिलबोर्ड' से ऐसा अविरंजित समांग बोर्ड अभिप्रेत है जिसकी मोटाई 0.50 मिलीमीटर से अधिक हो और जो मिश्रित रद्दी कागजों छानन सहित या छानन रहित और यांत्रिक पल्प से बनाया गया हो किन्तु जिसमें कोई रंजक द्रव्य न डाला गया हो
- (2) 'स्ट्राबोर्ड' से ऐसा बोर्ड अभिप्रेत है जो अंशतया पकाए हुए अविरंजित तृणों या बगास या घास या इनके मिश्रण से पूणतया या प्रमुखतया बनाया गया हो :

परन्तु —

- (i) किसी अन्य प्रयुक्त पदार्थ की मात्रा संघटकों के कुल वजन के एक तिहाई वजन से अधिक नहीं होगी
- (ii) ऐसा बोर्ड विशेष रूप से दावि नहीं होगा और उसके ऊपर और नीचे की सतहों पर कोई कागज चिपका नहीं होगा।

[सं० 59/70]

सा० का० नि० 382:—वित्त विधेयक 1970 के खण्ड 33 के जो खण्ड करें का अन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखना है, साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 12 और 12क द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा यह निदेश देती है कि जहां कोई माल पूर्वोक्त खण्ड के अधीन किसी विशेष उत्पाद-शुल्क के अध्वधीन कर दिया गया है और जहां ऐसे माल के निर्माता पर केन्द्रीय सरकार ने, उक्त नियम 12 और 12क के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा ऐसे उत्पाद-शुल्क का रिबेट अनुज्ञात किया है, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन ऐसे माल पर दिया जाता है, वहां विशेष उत्पाद-शुल्क का रिबेट भी उन्हीं शर्तों के अध्वधीन रहते हुए पूरा पूरा दिया जाएगा जो उत्पाद-शुल्क के रिबेट को शासित करती है।

[सं० 60/70]

सा० का० नि० 383 :—वित्त विधेयक, 1970 के खण्ड 33 के, जो खण्ड करों का अन्तिम संग्रहण अधिनियम 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, उपखण्ड (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उपर्युक्त विधेयक के खण्ड के उपखण्ड (1) में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क-योग्य माल को, जिस की बाबत पूर्वोक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन एक अधिसूचना, उस माल को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से, जितना उस माल के विनिर्माण में प्रयोग में लाए गए और सम्बद्ध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अन्य उत्पाद-शुल्क-योग्य माल पर (जिसे इसमें इसके पश्चात “अन्तर्वर्ती उत्पाद” कहा गया है) दिए जा चुके उत्पाद-शुल्क की रकम के बराबर है, छूट देते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई है, उस पर उद्ग्रहणीय उतने विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना सम्बद्ध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अन्तर्वर्ती उत्पाद पर दिये जा चुके विशेष उत्पाद-शुल्क के बराबर है।

[सं० 61/70]

सा० का० नि० 384 :—वित्त अधिनियम, 1970 के खंड 33 के, जो खंड करों का अन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, उपखंड (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के, नि म 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मव संख्या 20 की उप-मद (2) के अन्तर्गत आने वाले रेशमी फैब्रिक को पूर्वोक्त खंड 33 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद-शुल्क से एतद्वारा छूट देती है।

[सं० 62/70]

सा० का० नि० 385:—वित्त अधिनियम, 1970 के खंड 33 के, जो खंड करों का अन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, उपखंड (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम, 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 21 की उप-मद (2) के अन्तर्गत आने वाले ऊनी फैब्रिक को जो ऐसे आधारी फैब्रिकों से विनिर्मित किया गया है, जिस पर कोई विशेष उत्पाद शुल्क नहीं दिया गया है, पूर्वोक्त खंड 33 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने-विशेष उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना पूर्वोक्त उप-मद (2) के अन्तर्गत आने वाले ऐसे ऊनी फैब्रिकों में अन्तर्विष्ट आधारी फैब्रिक पर तत्समय उद्ग्रहणीय विशेष उत्पाद-शुल्क से अधिक हो :

परन्तु जहां विशेष उत्पाद-शुल्क आधारी फैब्रिकों पर दिया जा चुका है वहां पूर्वोक्त उप-मद (2) के अन्तर्गत आने वाले फैब्रिकों को उन पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद शुल्क से छूट दी जाएगी ।

[सं० 63/70]

सा० का० नि० 386:—वित्त अधिनियम, 1970 के खंड 33 के, जो खंड करों का अन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, उपखंड 4 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम, 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 22 की उप-मदों (2) और (3) के अन्तर्गत आने वाले रेयन और कृत्रिम रेशमी फैब्रिकों को, जो ऐसे आधारी फैब्रिकों से विनिर्मित किए गए हैं जिन पर कोई विशेष उत्पाद शुल्क नहीं दिया गया है, पूर्वोक्त खंड 33 के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने विशेष उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है जितना पूर्वोक्त उप-मदों (2) और (3) के अन्तर्गत आने वाले ऐसे रेयन और कृत्रिम रेशमी फैब्रिकों में अन्तर्विष्ट आधारी फैब्रिकों पर तत्समय उद्ग्रहणीय विशेष उत्पाद शुल्क से अधिक हो :

परन्तु जहां विशेष उत्पाद-शुल्क आधारी फैब्रिकों पर दिया जा चुका है वहां पूर्वोक्त उप-मदों (2) और (3) के अन्तर्गत आने वाले फैब्रिकों को उन पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट दी जायेगी ।

[सं० 64/70]

सा० का० वि० 387:—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 7/69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 जनवरी, 1969 को एतद्वारा विखंडित करती है ।

[सं० 65/70]

ई० आर० श्रीकांतिया, उप सचिव ।